

Roll No.
रोल नं.

--	--	--	--	--	--

परीक्षार्थी कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ **16** है।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नम्बर को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में **18** प्रश्न हैं।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।

SUMMATIVE ASSESSMENT - II**संकलित परीक्षा - II****HINDI****हिन्दी****(Course B)****(पाठ्यक्रम ब)**

निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 80

Maximum Marks : 80

- निर्देश :**
- (i) इस प्रश्न-पत्र के चार खण्ड हैं — क, ख, ग और घ।
 - (ii) चारों खण्डों के प्रश्नों के उत्तर देना **अनिवार्य** है।
 - (iii) यथासंभव प्रत्येक खण्ड के उत्तर क्रमशः दीजिए।

1. निम्नलिखित गदांश को पढ़कर उस पर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तरों वाले विकल्प चुनकर लिखिए :

1×5=5

छात्र-छात्राओं को राष्ट्र-निर्माण के आरंभिक चरण में अध्ययन के अतिरिक्त समाज-सेवा के साधारण कार्यों में भी रुचि लेनी चाहिए। छात्र-जीवन में मात्र पुस्तकीय अध्ययन-मनन उनके व्यक्तित्व को सही ढंग से विकसित नहीं कर सकता। उन्हें अपने सामाजिक परिवेश को जानना-समझना पड़ेगा। राष्ट्रीय चेतना तथा राष्ट्रीय दायित्व-बोध के लिए उन्हें सामाजिक परिवेश से जुड़ते हुए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश के साथ भी अपने आपको जोड़ना पड़ेगा। भारत विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं, रहन-सहन और रीति-रिवाजों का देश है। अतः छात्र-समाज को पारिवारिक और क्षेत्रीय दायरों को समझने के साथ-साथ भारत के बृहत् समाज को भी समझना पड़ेगा एवं उसके साथ आत्मीयता स्थापित करनी पड़ेगी। समाज-सेवा राष्ट्रीय आत्मा के निकट पहुँचने का अनिवार्य साधन है। प्रत्येक छात्र एवं छात्रा के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने पड़ोसियों, मुहल्लावासियों, ग्राम एवं नगरवासियों के सुख-दुख में सम्मिलित होकर उनकी सहायता करे। रोगियों की सेवा, असहायों की सहायता, मुहल्ले की सफाई, साक्षरता प्रचार, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सहायता आदि समाज-सेवा के ऐसे कार्य हैं, जिनमें वह भाग ले सकता है। इन कार्यों से उनके व्यक्तित्व में अनुशासन, उदारता, सहकारिता, आत्मत्याग, देश-प्रेम जैसे सद्गुणों का सहज ही विकास होगा।

- (i) राष्ट्र-निर्माण के लिए छात्र-छात्राओं को किन कार्यों में रुचि लेनी चाहिए ?
 - (क) खेलकूद में
 - (ख) सरकारी कार्यों में
 - (ग) राजनीति के कार्यों में
 - (घ) समाज-सेवा के कार्यों में

- (ii) समाज सेवा साधन है
 - (क) राष्ट्र की आत्मा को समझने का
 - (ख) राजनीति में प्रवेश करने का
 - (ग) अपने को सुखी बनाने का
 - (घ) मानवता की सेवा करने का

- (iii) विद्यार्थी किन प्राकृतिक संकटों में लोगों की सेवा कर सकते हैं ?
- (क) सड़क-दुर्घटना में
 - (ख) निरक्षरता दूर करने में
 - (ग) अकाल, बाढ़, भूकंप में
 - (घ) पारिवारिक विवाद में
- (iv) सेवाकार्यों से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में किन गुणों का विकास होता है ?
- (क) आत्मविश्वास और साहस
 - (ख) उदारता और सहानुभूति
 - (ग) सहकारिता और आत्मत्याग
 - (घ) सहयोग और देशभक्ति
- (v) सामाजिक परिवेश से जुड़ने की आवश्यकता क्यों बताई गई है ?
- (क) धर्मों और संस्कृतियों की जानकारी के लिए
 - (ख) चुनाव जीतने के लिए
 - (ग) राष्ट्रीय चेतना और दायित्व की समझ के लिए
 - (घ) सामाजिक बंधनों की परख के लिए

2. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तरों वाले विकल्प चुनकर लिखिए : $1 \times 5 = 5$

मज़दूर श्रम और शक्ति का एकीकृत रूप है। मानव-सभ्यता अपनी जंगलीपन से लेकर आज की उन्नत स्थिति तक मज़दूर के श्रम तथा शक्ति के कारण पहुँच पाई है। वह अनंतकाल से बिना आलस्य और विश्राम किए परिश्रम करता आ रहा है। उसने सतत निर्माण करने से कभी हाथ नहीं खींचे। उसके निर्माण का क्षेत्र भी अनंत है। उसने इस धरती को ही स्वर्ग बनाने के लिए बड़े-बड़े सरोवर बनाए। बड़े-बड़े पहाड़ों को काटकर मार्ग बनाए। पृथ्वी और समुद्र को खँगालकर उनके गर्भ से बहुमूल्य रत्न संसार की झोली में डालकर उसे सुखी और समृद्ध बनाया। वह सच्चे अर्थों में प्रजापति है जो सतत निष्काम कर्म में लीन रहता है। परन्तु यह कितनी बड़ी विडंबना है कि समस्त मानव-जाति का भरण-पोषण करने वाला मज़दूर आज भी काली अँधेरी कोठरियों में भूखा, नंगा रहने तथा अपमानित जीवन जीने के लिए विवश है।

- (i) मज्जदूर को श्रम और शक्ति का एकीकृत रूप कहा गया है, क्योंकि
- (क) वह शक्तिशाली होता है
 - (ख) श्रम करना उसका स्वभाव है
 - (ग) उसमें शक्ति भी है और परिश्रम करने की आदत भी
 - (घ) वह श्रम के साथ शक्ति को मिलाता है
- (ii) 'हाथ खींचना' मुहावरे का अर्थ है
- (क) हाथ रोकना
 - (ख) सहारा न देना
 - (ग) हाथापाई करना
 - (घ) लड़ पड़ना
- (iii) वह सच्चे अर्थों में प्रजापति है, क्योंकि
- (क) हमेशा अधिक मज्जदूरी चाहता है
 - (ख) जनता की सेवा में लगा रहता है
 - (ग) प्रजा के काम करता है
 - (घ) सदा कर्म में लीन रहता है
- (iv) मज्जदूर की विडंबना क्या है ?
- (क) मानव-जाति का कल्याण करना
 - (ख) औरें के लिए घर बनाकर स्वयं अँधेरी कोठरी में रहना
 - (ग) अपमानित जीवन जीना
 - (घ) पहाड़ों को काटकर मार्ग बनाना
- (v) गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा
- (क) मज्जदूर और मज्जदूरी
 - (ख) श्रम की शक्ति
 - (ग) मज्जदूरी और लोग
 - (घ) मज्जदूर का जीवन

3. निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर उस पर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तरों वाले विकल्प चुनकर लिखिए : 1×5=5

जय-जय भारतवर्ष हमारे, जय-जय हिंद, हमारे हिंद,
 विश्व-सरोवर के सौरभमय प्रिय अरविंद, हमारे हिंद ।
 तेरे स्रोतों में अक्षय जल, खेतों में है अक्षय धान,
 तन से, मन से, श्रम-विक्रम से है समर्थ तेरी संतान ।
 सबके लिए अभय है, जग में जन-जन में तेरा उत्थान,
 बैर किसी के लिए नहीं है, प्रीति सभी के लिए समान ।
 गंगा-यमुना के प्रवाह हैं अमल अनिंद्य हमारे हिंद,
 जय-जय भारतवर्ष हमारे, जय-जय हिंद, हमारे हिंद ।

 तेरी चक्र-पताका नभ में ऊँची उड़े सदा स्वाधीन,
 परंपरा अपने वीरों की शक्ति हमें दे नित्य नवीन
 सबका सुहित हमारा हित है, सार्वभौम हम सार्वजनीन,
 अपनी इस आसिंधु धरा में नहीं रहेंगे होकर हीन ।
 ऊँचे और विनम्र सदा के हिमगिरि, विध्य, हमारे हिंद
 जय-जय भारतवर्ष हमारे, जय-जय हिंद, हमारे हिंद ॥

(i) काव्यांश में ‘सौरभमय प्रिय अरविंद’ का भाव है

- (क) पवित्र जल का कमल
- (ख) सुगंधित और प्यारा कमल
- (ग) लहरों में तैरता सुगंधित कमल
- (घ) सौरभ को प्रिय कमल

(ii) भारतीय किससे समर्थ है ?

- (क) स्रोतों के अक्षय जल से
- (ख) खेतों के अक्षय धान से
- (ग) तन, मन और पराक्रम से
- (घ) हृदय में बसी प्रीति से

(iii) हमें नित्य नवीन शक्ति कहाँ से मिलती है ?

- (क) प्राकृतिक संपत्ति से
- (ख) धन, ऐश्वर्य से
- (ग) खेतों-खलिहानों से
- (घ) वीरों की परंपरा से

- (iv) काव्यांश में भारतीयों को 'सार्वजनीन' क्यों कहा गया है ?
- (क) भारतीय सब जगह हैं
 - (ख) भारतीयों की बात सब मानते हैं
 - (ग) भारतीय सबके हित में अपना हित समझते हैं
 - (घ) भारतीय सबकी प्रशंसा करते हैं
- (v) काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा
- (क) जय भारतवर्ष
 - (ख) जय सार्वभौम
 - (ग) विश्वसरोवर का कमल
 - (घ) भारत की धरती
4. निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उस पर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तरों वाले विकल्प चुनकर लिखिए : $1 \times 5 = 5$

हृदय से तुम निकाल दो, अगर हो पस्त हिम्मती,
 नहीं है खेल मात्र ये, ये ज़िदगी है ज़िदगी,
 न रक्त है, न स्वेद है, न हर्ष है, न खेद है,
 ये ज़िदगी अभेद है, यही तो एक भेद है ।
 समझ के सब चले चलो, क़दम-क़दम बढ़े चलो ॥

पहाड़ से चली नदी, रुकी नहीं कहीं ज़रा,
 गई जिधर उधर किया ज़मीन को हरा-भरा,
 चली समान रूप से, ज़मीन का न ख्याल कर,
 मगन रही निनाद में, ज़मीन पर, पहाड़ पर,
 उसी तरह चले चलो, उसी तरह बढ़े चलो ॥

जलाओ दिल के दाग से बुझे दिलों के दीप को,
 जो दूर हैं, उन्हें भी खींच लो जरा समीप को,
 सहो ज़मीन की तरह डरो न आसमान से,
 जलो तो आन-बान से, बुझो तो एक शान से,
 अखंड दीप-से जलो, सदा-बहार से खिलो ॥

- (i) जीवन के बारे में हमें क्या समझ लेना चाहिए ?
- (क) जीवन एक खेल है
 - (ख) जीवन में पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए
 - (ग) जीवन भेदों से भरा है
 - (घ) जीवन तो बस जीवन है
- (ii) कौन-सा गुण नदी का नहीं है ?
- (क) कहीं न रुकना
 - (ख) ज़मीन को हरा-भरा रखना
 - (ग) पहाड़ और मैदान को समान समझना
 - (घ) सुंदर क्षेत्रों में ही बहना
- (iii) काव्यांश में युवा को किसकी भाँति सहनशील बनने को कहा गया है ?
- (क) धरती
 - (ख) आसमान
 - (ग) पहाड़
 - (घ) दीपक
- (iv) पहाड़ से निकली नदी कल-कल शब्द करती है
- (क) ज़मीन पर
 - (ख) पहाड़ पर
 - (ग) मैदानों में
 - (घ) सर्वत्र
- (v) इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा
- (क) तेज़ चलो
 - (ख) चले चलो
 - (ग) क़दम-क़दम बढ़े चलो
 - (घ) नदी और हम

खण्ड ख

5. (i) “आपके मित्रों में से कोई अवश्य आएगा” — वाक्य में सर्वनाम पदबंध है 1
 (क) आपके मित्रों में से
 (ख) आपके मित्रों में से कोई
 (ग) आपके मित्रों में से कोई नहीं
 (घ) मित्रों में से कोई आपका
- (ii) “मेरी पुस्तक उसके पास है” — वाक्य में रेखांकित पद का परिचय है 1
 (क) संज्ञा, व्यक्तिवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन
 (ख) संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन
 (ग) संज्ञा, समूहवाचक, पुंलिंग, बहुवचन
 (घ) संज्ञा, जातिवाचक, पुंलिंग, एकवचन
- (iii) “देश-भर के युवकों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया” — वाक्य में रेखांकित पदबंध है 1
 (क) सर्वनाम
 (ख) विशेषण
 (ग) क्रिया-विशेषण
 (घ) संज्ञा
- (iv) ‘वह सबकी भलाई करता है’ — वाक्य में रेखांकित का पद-परिचय है 1
 (क) सर्वनाम, पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, एकवचन
 (ख) सर्वनाम, पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, बहुवचन
 (ग) सर्वनाम, पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष, एकवचन
 (घ) सर्वनाम, पुरुषवाचक, अन्य पुरुष, एकवचन
6. (i) “मैं ठीक समय पर पहुँच गया, परन्तु दिनेश नहीं आया।” — रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद है 1
 (क) सरल वाक्य
 (ख) मिश्र वाक्य
 (ग) साधारण वाक्य
 (घ) संयुक्त वाक्य

(ii) निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है :

- (क) जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा दरवाज़ा बंद हो गया ।
- (ख) मैं वहाँ पहुँचा और दरवाज़ा बंद हो गया ।
- (ग) मेरे पहुँचते ही दरवाज़ा बंद हो गया ।
- (घ) मेरी पहुँच से दरवाज़ा बंद हो गया ।

(iii) निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है :

- (क) मेरे आते ही वर्षा होने लगी ।
- (ख) उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी ।
- (ग) वह घर से निकला और वर्षा होने लगी ।
- (घ) ज्यों ही वह घर से निकला, वर्षा होने लगी ।

(iv) “पिताजी दफ्तर से आए । वे टी.वी. देखने लगे ।” इन वाक्यों से बना सरल वाक्य है 1

- (क) पिताजी दफ्तर से आए और टी.वी. देखने लगे ।
- (ख) पिताजी दफ्तर से आकर टी.वी. देखने लगे ।
- (ग) पिताजी दफ्तर से टी.वी. देखने आते हैं ।
- (घ) ज्यों ही पिताजी दफ्तर से आए, टी.वी. देखने लगे ।

7. (i) ‘प्रत्येक’ का संधि-विच्छेद है 1

- (क) प्रती + एक
- (ख) प्रति + एक
- (ग) प्रत्य + एक
- (घ) प्रत + एक

(ii) ‘कवि + ईश्वर’ की संधि है 1

- (क) कविश्वर
- (ख) कपीश्वर
- (ग) कवीश्वर
- (घ) कवेश्वर

(iii) 'गृहप्रवेश' समस्त पद का विग्रह है

- (क) गृह से प्रवेश
- (ख) गृह का प्रवेश
- (ग) गृह को प्रवेश
- (घ) गृह में प्रवेश

(iv) 'महान् जो आत्मा' का समस्त पद है

- (क) महत्मा
- (ख) महात्मा
- (ग) माहत्मा
- (घ) महान्-आत्मा

8. (i) भले व्यक्ति पर _____ से क्या लाभ होगा ? वाक्य में उपयुक्त मुहावरे से रिक्त स्थान

- (क) लोहा लेना
- (ख) आँख दिखाना
- (ग) उंगली उठाना
- (घ) नमक छिड़कना

(ii) "लेखक ने पुस्तक में इतनी सूचनाएँ दी हैं कि _____ की उक्ति को चरितार्थ कर दिया है।" — वाक्य में उपयुक्त लोकोक्ति से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।

- (क) अपना हाथ जगन्नाथ
- (ख) कठौती में गंगा
- (ग) गागर में सागर
- (घ) अपने मुँह मियाँ मिट्ठू

(iii) "अंधे की लाठी" मुहावरे का अर्थ है

- (क) एकमात्र सहारा
- (ख) एकसमान
- (ग) महत्वपूर्ण वस्तु
- (घ) अकेला आदमी

(iv) 'एक अनार सौ बीमार' लोकोक्ति का अर्थ है

1

- (क) अनार से बीमारी दूर होती है
- (ख) अकेला बहादुर
- (ग) एक ही वस्तु के कई चाहने वाले
- (घ) केवल एक ही चाह

9. (i) निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है :

1

- (क) मैं तुमको कल देखा हूँ।
- (ख) तुमको मैं कल देखा।
- (ग) अपन तुमको कल देखा।
- (घ) मैंने तुम्हें कल देखा।

(ii) निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है :

1

- (क) वह हाथी पागल हो गया है।
- (ख) वह पागल हाथी हो गया है।
- (ग) वह हाथी पागल है।
- (घ) वह किसका हाथी है ?

(iii) निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है :

1

- (क) तुम्हारा सारा मेहनत सफल हो गया।
- (ख) सारा मेहनत तुम्हारी सफल हो गई।
- (ग) तुम्हारी सारी मेहनत सफल हो गई।
- (घ) सारा मेहनत तुम्हारा सफल हो गई।

(iv) निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है :

1

- (क) मेरे को अभी बाज़ार जाना है।
- (ख) अभी बाज़ार मुझे जाना है।
- (ग) मुझे अभी बाज़ार जाना है।
- (घ) अभी मेरे को बाज़ार जाना है।

10. निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों के उचित विकल्प चुनकर लिखिए : 1x5=

सोहत ओढ़ैं पीतु पटु स्याम, सलौनैं गात ।
मनौ नीलमनि-सैल पर आतपु पर्यौ प्रभात ॥
कहलाने एकत बसत अहि मयूर, मृग बाघ ।
जगतु तपोबन सौ कियौ दीरघ-दाघ निदाघ ॥

- (i) श्रीकृष्ण ने पीत वस्त्र कहाँ पर ओढ़ा हुआ है ?
 (क) काले सिर पर
 (ख) पतली कमर पर
 (ग) साँवले शरीर पर
 (घ) बड़े कंधों पर
- (ii) श्रीकृष्ण के शरीर पर पीला वस्त्र कैसा लग रहा है ?
 (क) जल में नीले आसमान की छाया की तरह झिलमिल
 (ख) नीले आकाश में इन्द्रधनुष की तरह जगमगाता
 (ग) नदी में पर्वत की छाया की तरह फैलता
 (घ) नीलमणि के पर्वत पर सूरज की सुनहरी किरणों की तरह चमकता
- (iii) किन प्राणियों में आपसी वैर-भाव नहीं है ?
 (क) मनुष्य और घोड़े में
 (ख) हिरण और बाघ में
 (ग) साँप और मोर में
 (घ) चूहा और बिल्ली में
- (iv) आपसी वैर वाले प्राणी शत्रुता कब भूल जाते हैं ?
 (क) भीषण वर्षा में
 (ख) अत्यधिक गर्मी में
 (ग) भूकंप आने पर
 (घ) वसंत ऋतु के सुहावने मौसम में

(v) ग्रीष्म क्रृतु में आकाश कैसा हो जाता है ?

- (क) स्वच्छ दर्पण जैसा
- (ख) धने जंगल जैसा
- (ग) तपोवन जैसा
- (घ) नदी-तट के समान

अथवा

विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं,

केवल इतना हो (करुणामय)

कभी न विपदा में पाऊँ भय ।

दुःख-ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही

पर इतना होवे (करुणामय)

दुख को मैं कर सकूँ सदा जय ।

कोई कहीं सहायक न मिले

तो अपना बल-पौरुष न हिले ॥

(i) कवि विपत्ति आने पर ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है ?

- (क) विपत्ति को दूर करने की
- (ख) विपत्तियों से न डरने की
- (ग) विपत्तियों को सह लेने की
- (घ) विपत्तियों से दुखी न होने की

(ii) दुख से पर्दित चित्त में कवि क्या चाहता है ?

- (क) दुखों से दूर रहने का अवसर
- (ख) दुखों से निराश हो जाने का अवसर
- (ग) दुखों को सहने की शक्ति
- (घ) दुखों को जीत सकने का साहस

(iii) दुख में कोई सहायक न मिलने पर कवि की क्या प्रार्थना है ?

- (क) उसका बल-पराक्रम कम न हो
- (ख) उसके मित्र उसकी सहायता करें
- (ग) ईश्वर उसकी रक्षा करे
- (घ) वह किसी से सहायता न माँगे

- (iv) सहायता न माँगकर ईश्वर से 'करुणा का सहारा' माँगना कवि के किस भाव का सूचक है ?
- (क) हठ
 - (ख) आत्मविश्वास
 - (ग) क्षमता
 - (घ) दैन्य
- (v) कवि को ईश्वर के किस भाव पर भरोसा है ?
- (क) शक्ति
 - (ख) सहानुभूति
 - (ग) सहायता
 - (घ) करुणा

11. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

$$2\frac{1}{2} + 2\frac{1}{2} = 5$$

- (क) 'गिरगिट' कहानी के आधार पर लिखिए कि जनरल साहब के भाई का कुत्ता जानकर ओचुमेलाव ने क्या कहा और क्यों ?
- (ख) प्रकृति में आ रहे असंतुलन में बढ़ती आबादी का क्या योगदान है ? इसका क्या परिणाम हुआ है ? 'अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले' पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए ।
- (ग) 'झेन की देन' में जापान में अधिकांश लोगों के मानसिक रोगी होने का क्या कारण दिया है ? आप इससे कहाँ तक सहमत हैं ?
- (घ) 'गिन्नी का सोना' पाठ के आधार पर गांधीजी के आदर्श और व्यवहार के सम्बन्ध में ताँबे और सोने का रूपक स्पष्ट कीजिए ।

12. कर्नल सआदत अली को अवध के तख्त पर क्यों बिठाना चाहता था ? 'कारतूस' पाठ के आधार पर लिखिए ।

5

अथवा

'गिरगिट' कहानी के शीर्षक की सार्थकता उदाहरण-सहित स्पष्ट कीजिए ।

13. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं। चंद लोग उनमें व्यावहारिकता का थोड़ा-सा ताँबा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं। तब हम लोग उन्हें 'प्रैक्टिकल आइडियालिस्ट' कहकर उनका बखान करते हैं।

पर बात न भूलें कि बखान आदर्शों का नहीं होता, बल्कि व्यावहारिकता का होता है। और जब व्यावहारिकता का बखान होने लगता है तब 'प्रैक्टिकल आइडियालिस्टों' के जीवन से आदर्श धीरे-धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यावहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। सोना पीछे रहकर ताँबा ही आगे आता है।

(क) शुद्ध आदर्श की तुलना किससे की गई है और क्यों ? 2

(ख) आदर्श में व्यावहारिकता मिला देने का क्या आशय है? इसका क्या परिणाम होता है? 2

(ग) सोने की अपेक्षा ताँबा आगे क्यों आ जाता है? 1

अथवा

दुनिया कैसे बजूद में आई? पहले क्या थी? किस बिन्दु से इसकी यात्रा शुरू हुई? इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है। धार्मिक ग्रंथ अपनी-अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव-जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी-बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बँटकर एक-दूसरे से दूर हो चुका है।

(क) आशय स्पष्ट कीजिए — 'लेकिन धरती किसी एक की नहीं है।' 2

(ख) 'धरती कैसे बजूद में आई?' पृथ्वी के निर्माण के बारे में किसी एक वैज्ञानिक तर्क या धार्मिक विश्वास का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। 2

(ग) पहले जैसा संसार अब क्यों नहीं रहा? 1

14. (क) 'मनुष्यता' कविता के आधार पर लिखिए कि कवि ने सबसे बड़ा विवेक किसे कहा है और क्यों? 2

(ख) 'कर चले हम फ़िदा जानो-तन, साथियो' कविता में धरती को दुलहन क्यों कहा गया है? 2

(ग) बिहारी कवि के अनुसार ईश्वर का वास कहाँ होता है? 1

15. 'सपनों के-से दिन' पाठ के आधार पर लिखिए कि लेखक छात्र-जीवन में छुट्टियों के लिए मिले काम को कैसे पूरा करता था।

3

अथवा

ज़हीन होने पर भी टोपी शुक्ला के एक ही कक्षा में दो बार फेल होने के कारणों पर प्रकाश डालिए।

16. टोपी ने दुबारा कलक्टर साहब के बँगले की ओर रुख क्यों नहीं किया? 'टोपी शुक्ला' पाठ के आधार पर लिखिए।

2

खण्ड घ

17. दिए गए संकेत-बिन्दुओं के आधार पर निम्नलिखित विषयों में से किसी **एक** विषय पर लगभग 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए :

5

(क) मोबाइल फोन — विज्ञान का अद्भुत वरदान

- आश्चर्यजनक उपकरण
- जीवन में अनेक प्रकार से उपयोगी
- सदुपयोग और दुरुपयोग

(ख) छोटा परिवार — सुख का आधार

- परिवार कल्याण
- जनसंख्या-वृद्धि, अशिक्षा, गरीबी
- सुख का आधार कैसे

(ग) अच्छा स्वास्थ्य — एक वरदान

- स्वास्थ्य और शरीर
- स्वस्थ मस्तिष्क - व्यायाम
- लाभ

18. आपके क्षेत्र में बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम के लिए थानाध्यक्ष को पत्र लिखिए।

5

अथवा

आपके जन्मदिन पर मित्र अमिताभ ने एक उपहार भेजा है। उसे कृतज्ञता-ज्ञापित करते हुए एक पत्र लिखिए।